



Embark Your New Journey with GK Electric



Make A Fresh Start With GK Electric



Full Metal
Body



Comfortable
Driving



Auto Style
Handle



Heavy
Suspension



Powerful Braking System
with Master Cylinder

Technical Specification

Vehicle Dimension & weight	Vehicle Dimension & weight
Vehicle Category / Type	Special Purpose Battery Operated Vehicle / E- Cart
Model	"GK Electric"
Pay Loading Capacity	400 KGS
Dimensions- Length *Width* Height (mm)	2425*995*300
Loader Dimensions Length * Width *Height - (mm)	1365*990*1715
Wheel Base (mm)	1825 MM
Vehicle Kerb weight (kg)	370 KG
Ground Clearance (mm)	190 mm
Top Speed - km/h	24.5 Kmph
BATTERY	
Battery type - Voltage	Lead Acid / Lithum - 48V / 51.2V
Recommended Battery Capacity (Installed) kWh	130Ah / 86 Ah
Charging Time 0-100% 2 Standard Conditions	7-8 Hours For Lead Acid Battery 3.5 /hrs / 4-5 hrs For Lithum
Indian Motors and Controller	1200 Watts / 48v
DRIVE TRAIN	
Transmission Type	Direct Drive
SUSPENSION & BRAKES	
Suspension - Front	Helical Spring + Hydraulic Shock Absorber With Antidive
Brake - Front / Rear	Hydraulic Master Cylinder
	Front: Friction Shoe Expanding Type; Rear: Disc Brake
TYPE - ROOF TYPE	
	METAL TOP
Warranty	1 Year Or 30000 Km / Oem Warranty Applicable For Motor / Controller
BODY TYPE	
Wind Screen & Wiping System	YES
Spare Wheel Provision	NO

G.K. MOTORS
(A Unit of G.K. Autovehicle Pvt. Ltd.)

📍 Besides Khamtarai Thana, Bhanpuri, Raipur

📍 Durga College Complex, K.K. Road, Raipur

📍 Infront of Balaji Fruit Market, Dhamtari Road, Lalpur, Raipur (C.G.)

☎️ **9205323757**

Marketed by GK Electric and Manufactured by RAP Eco Motors



चलिए चलें सुनहरें भविष्य की ओर GK Electric के साथ



जी के इलेक्ट्रिक के साथ करें नयी शुरुआत



पूर्ण रूप से मेटल बॉडी



चलाने में आरामदायक



ऑटो स्टाइल हैंडल



मजबूत सस्पेंशन



मास्टर सिलेंडर के साथ
शक्तिशाली ब्रेकिंग सिस्टम

टेक्रिकल स्पेसिफिकेशन

व्हीकल डाइमेंशन एंड वेट	
व्हीकल कैटेगरी / टाइप	विशेष प्रयोजन बैटरी चालित वाहन
मॉडल	जी.के इलेक्ट्रिक
लोडिंग क्षमता	400 किलोग्राम
आयाम, चौड़ाई, लंबाई	2425*995 *300
लोडर का आयाम	1365 *990 *1715
पहियों का बेस	1825 (एम.एम्)
पहियों का कार्ब वज़न	370 किलोग्राम
ग्राउंड क्लियरेंस (एम.एम्)	190 (एम.एम्)
उच्चतम गति	24. 5 कि.मी प्रतिघंटा
बैट्री	
बैट्री प्रकार	वॉल्टेज - लीड एसिड /लिथियम - 48 V / 51 . 2 V
अनुशंसित बैटरी क्षमता (इंस्टाल्ड) के.डब्ल्यू. एच	130 ए एच/ 86. ए एच
चार्जिंग टाइम 0-100 % 2 मानक स्थिति	लीड एसिड बैटरी के लिए 7 से 8 घंटे, 4 से 5 घंटे लिथियम के लिए।
इंडियन मोटर्स एंड कंट्रोलर्स	1200 वॉट्स
ड्राइव ट्रेन	
ट्रांसमिशन टाइप	डाइरेक्ट ड्राइव
सस्पेंसन एंड ब्रेक्स	
सस्पेंसन -फ्रंट	हेबलिकल स्प्रिंग +हाइड्रोलिक शौक अब्सॉर्बर विथ एंटी ड्राइव
ब्रेक फ्रंट / रियर	हाइड्रोलिक मास्टर सिलेंडर
रियर : डिस्क ब्रेक	फ्रंट : फ्रिक्शन शू एक्सपैडिंग टाइप रियर : डिस्क ब्रेक
टाइप रियर- रुफ टाइप	मेटल टॉप
वारंटी	1 वर्ष अथवा 30000 कि.मी / ओईएम वारंटी एप्लीकेबल फॉर मोटर / कंट्रोलर
बॉडी टाइप	फुल मेटल बॉडी
विंड स्क्रीन एंड वार्डिंग सिस्टम	यस
स्पेयर व्हील प्रोविज़न	नो

G.K. MOTORS
(A Unit of G.K. Autovehicle Pvt. Ltd.)

📍 Besides Khamtarai Thana, Bhanpuri, Raipur 📞 **9205323757**
📍 Durga College Complex, K.K. Road, Raipur
📍 Infront of Balaji Fruit Market, Dhamtari Road, Lalpur, Raipur (C.G.)

Marketed by GK Electric and Manufactured by RAP Eco Motors